



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 15, 2007/फाल्गुन 24, 1928

No. 278]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 2007/PHALGUNA 24, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2007

का.आ. 381(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 333(अ), तारीख 16 मार्च, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के 187.200 कि.मी. से 239.000 कि.मी. (झांसी-लखनादौन सेक्शन) तक के भूखंड जिसमें बाईपास, यदि कोई है, का निर्माण भी शामिल है, का निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 20 अप्रैल, 2006 को "दैनिक भास्कर" और तारीख 7 अप्रैल, 2006 को "दैनिक लोकपथ" में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 26 के कि.मी. 187.200 से 239.000 कि.मी. तक (झांसी-तखनादोन खण्ड) के लिए अर्जन की जौनी वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम (तहसील)	गाँव का नाम	खसरा / सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सागर	सागर	(1) खेजराबाग	78	सरकारी	नाला	0.050	मध्य प्रदेश शासन
				144	सरकारी	रास्ता	0.080	मध्य प्रदेश शासन
			(2) करैया	271	निजी	असिंचित	0.381	उमाकान्त पिता श्रवणकुमार
			(3) सुरखी	1302	निजी	असिंचित	0.019	हनिफखॉ पिता मुहम्मद खॉ
				1301/1	निजी	असिंचित	0.029	वाहिदखॉ पिता मुहम्मद खॉ
				1296/1	निजी	सिंचित	0.263	किरण पति रतनचन्द्र जैन
				1290	सरकारी	रास्ता	0.500	मध्य प्रदेश शासन
				1293	निजी	असिंचित	0.142	शंकर लाल वल्द बलराम
				1292	निजी	असिंचित	0.539	नारायण सिंह पिता प्रह्लाद सिंह
				1291	निजी	असिंचित	0.483	रामकिशोर उदय पिता नारायण सिंह
				242	निजी	सिंचित	0.003	कडोरी घान्चु प्रभु पिता प्रेम हल्की बेवा प्रेम
				1280	निजी	असिंचित	0.060	रामदुलैया पति अब्दुल खॉ
				1279	निजी	सिंचित	0.240	दशोदा बाई बेवा भैया राम
				1277	निजी	सिंचित	0.610	शिवकुमार सिंह वल्द नरान सिंह सुब्रह्मसिंह राजासिंह भूवतसिंह रामसिंह वल्द कुवैर सिंह
				1276	निजी	सिंचित	0.590	रम्पू वल्द मोहन
				1275	निजी	सिंचित	0.410	गोविन्द वल्द नारायण सिंह विनीता बेवा राम प्रभू
				1278/1	निजी	सिंचित	0.400	ममता पति अमर सिंह उदय सिंह पिता रुपसिंह
				1278/2	निजी	सिंचित	0.750	इन्दर सिंह राजकुमार शेरसिंह पिता भैया राम
				1271	निजी	असिंचित	0.166	भगवानसिंह शेरसिंह निभय पिता भैयालाल दशोदाबाई बेवा भैयालाल अमरसिंह उद्यमसिंह पिता रुपसिंह
				1311	निजी	असिंचित	0.110	रामेश्वर नारायण पिता प्रह्लाद
			(4) सिदगुआँ	388	निजी	सिंचित	0.380	गुलाबचन्द्र वल्द सूनंदर लाल साकिन सागर
			(5) चितौरा	712	सरकारी	रास्ता	0.010	मध्य प्रदेश शासन
				801	निजी	असिंचित	0.231	रामकुमार पुत्र लालसिंह लोधी
				537	निजी	असिंचित	0.100	शलिनी बाई बेवा मधुकरराव, सुधाजैन पति कमलेशजैन, नरेन्द्र सिंह सुरेन्द्रसिंह बहादूरसिंह बीरेन्द्रसिंह वल्द गुलजारी लाल भागवाई पति खेत सिंह लक्ष्मीबाई पति जीसीग
				533	निजी	असिंचित	0.026	शिवराज सिंह वल्द खूब सिंह
				835	निजी	असिंचित	0.158	कमल वल्द राधेश्याम केशरवानी

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th March, 2007

S.O. 381(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highway (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 333(E), dated the 16th March, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under Sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening), maintenance, management and operation of National Highway No. 26, including construction of bypass, if any, on the stretch of land from Km 187.200 to Km 239.000 (Jhansi-Lakhnadon Section) in Sagar District in the State of Madhya Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar”, dated the 20th April, 2006 and in “Dainik Lok Path”, dated the 7th April, 2006, under Sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas, objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of Sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of Sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 187.200 to Km 239.000 (Jhansi - Lakhnadon Section) on the National Highway No. 26, in the State of Madhya Pradesh

Serial number	Name of the district	Name of the taluka/ Tehsil	Name of the village	Survey/ Khasra number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of the land owner/ interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sagar	Sagar	(1) Khajrabag	78	Government	Nala	0.050	M.P. Government
				144	Government	Road	0.080	M.P. Government
			(2) Kariya	271	Private	Unirrigated	0.381	Ummakant S/o Sarvan kumar
			(3) Surkhi	1302	Private	Unirrigated	0.019	Hanif Khan S/o Muhammad Khan
				1301/1	Private	Unirrigated	0.029	Vahid Khan S/o Muhammad Khan
				1296/1	Private	Irrigated	0.263	Kiran Jain W/o Ratanchandra Jain
				1290	Government	Road	0.500	M.P. Government
				1293	Private	Unirrigated	0.142	Shankarlal S/o Balram
				1292	Private	Unirrigated	0.539	Naran Singh S/o Prahlad Singh
				1291	Private	Unirrigated	0.483	Ramkishor Uday S/o Narayan Singh
				242	Private	Irrigated	0.003	Kadori Dhandhu Prabhu S/o Prem Halki Veba Prem
				1280	Private	Irrigated	0.060	Ramdulaiya W/o Abdul Khan
				1279	Private	Irrigated	0.240	Dashoda Bai Veba Bhaiya Ram
				1277	Private	Irrigated	0.610	Shiv Kumar Singh S/o Naran singh Suryabhan Singh Raja Singh Bhuvat Singh Ramsingh S/o Kuwar singh
				1276	Private	Irrigated	0.590	Rammu S/o Mohan
				1275	Private	Irrigated	0.410	Govind S/o Narayan Singh Vinita Veba Ram Prabhu
				1278/1	Private	Irrigated	0.400	Mamta W/o Amar Singh Uday singh s/o Roopsingh
				1278/2	Private	Irrigated	0.750	Indar Singh Rajkumar Sersingh S/o Bhaiya Ram
				1271	Private	Unirrigated	0.166	Bhagwan singh Sersingh Nibhay s/o Bhaiyalal Dashodabai Veba Bhaiya lal Amarsingh Udham Singh s/o Roopsingh
				1311	Private	Unirrigated	0.110	Rameshwar Narayan s/o Prahlad
			(4) Sidguwan	388	Private	Irrigated	0.380	Gulabchandra s/o Sundarlal Sakin sagar
			(5) Chittora	712	Government	Road	0.010	M.P. Government
				801	Private	Unirrigated	0.231	Ramkumar s/o Lalsingh Lodhi -1
				537	Private	Unirrigated	0.100	Shalinibai veba Madhukar raw, Sudha Jain w/o Kamlesh Jain, Narendra singh Surendra singh, Bahadur singh, Virendra Singh, s/o Gulgari lal Bhagbai w/o Khet singh Laxmi Bai w/o Shri Sing
				533	Private	Unirrigated	0.026	Shivraj singh s/o Khoobsingh
				835	Private	Unirrigated	0.158	Kamal s/o Radheshyam Kesharwani sa Jawaharganj sagar

[F. No. NHAI/30030/NHDP/PN-II/LA-1/2005/LA-3D]

PRABHAKAR, Dy. Secy.